

# हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलिपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

जून 2022	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुक्र	सुनि	रबि
			1 सुमोनथाइ सान	2 सुमोनथाइ सान	3 सुमोनथाइ सान	4 सुमोनथाइ सान	5 बन्द सान आरो फालिथाइ सान (मुलुगनां आबहावा सान)
	6 सुमोनथाइ सान	7 सुमोनथाइ सान	8 सुमोनथाइ सान	9 सुमोनथाइ सान	10 थाखो सान	11 थाखो सान	12 बन्द सान
	13 थाखो सान	14 थाखो सान	15 थाखो सान	16 थाखो सान	17 थाखो सान	18 थाखो सान	19 बन्द सान
	20 बन्द सान आरो फालिथाइ सान (कलामुक बिष्णु राभानि सान)	21 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (बुहुमनां योगा सान)	22 थाखो सान	23 थाखो सान	24 थाखो सान	25 थाखो सान	26 बन्द सान
	27 थाखो सान	28 थाखो सान	29 थाखो सान	30 बन्द सान (हुल सान)			

### थाखो बादियै फरा राननाय

#### थाखो क निफ्राय बा सिम

क थाखो	सेथि	नैथि	शामथि	आयदा	बैथि	बाथि
गथ'सानि मावफारि (पिपु: 10-19)	फोनांजाब फुंखा (फरायसालि दरख)	फोनांजाब फुंखा	फोनांजाब फुंखा	बर' (राव-1)	उखेनाय	फिवागि मेल
Beginners' English (Page: 10-15)				सानखान्थि	लाउथाइ	दखलइथि आरो सोरगिदि सिमा
				इंराजी (राव-2)	Who has seen the Wind?	Bird Talk
				आबहावा फरायसनाय	<input type="checkbox"/> दे <input type="checkbox"/> हायुंआरि सान	<input type="checkbox"/> आसमणि हरिमु <input type="checkbox"/> सिधिंगाचारि सम्पदफोर

सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोनि थाखाय थियारि खालामनाय फोनांजाब फुंखानि हाबा-हुखा आरो बेनि सुमोनथाइखौ बेयाव थिसननाय बिथोन बादियै मावफुं ।

थाखो क निफ्राय बासिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

**सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि ।**

- मोनबा मोनदांथिग्राखौ सिनायनो सोलों ।
- आबहावानिफ्राय फिसा फिसा मुवा-बेसाद जमा खालामगोन ।
- दिदोमथि लाखिनाय ब्याम खालामगोन ।
- टयलेट बाहायनायजों लोगोसे जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय ।

**आरिमु आरो शिल्प सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

- हा आरो लेखा बिलाइजों गुबुन गुबुन महर बानायगोन ।
- गारनाय मुवा जैरै- गाबनि थिमि, प्लाष्टिकनि बथ 'ल, मग, काप आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरजों ताब थियारि खालामना बिबार फुलि गायगोन ।

### फालिथाइ सान आरो गुबुन गुबुन मावफारि

1-9 जुन = सेथि सुमोनथाइ । बे दाननि थामथि हाबथायाव फरायसनि सुमोनथाइनि रेबथुमखौ दिथागिरिजों सावराय ।

5 जुन = (क) फुनि आफादआव मुलुगनां आबहावा साननि गोनांथिखौ फोरमायगोन । आबहावानि बिंदु रैखाथिनि थाखाय बिफां-लाइफानि गोनांथिनि फारसे फरायसनि गोसे बोगोन । (ख) सिगांनो थग थियारि खालामखानाय बादियै फरायसालिनि सोरगिदि बिफां गायगोन । (ग) आबहावा सैरखा, गुबुले जानायखौ होबथानायआरि आयदायाव रनसाय लिरनाय, खन्थाइ लिरनाय, हरखाब बिबुंथि आरि खुंगोन ।

20 जुन = फुनि आफादआव बिष्णु राभानि मुसुखा/सावगारियाव बिबार बाउगोन । फरायसालियाव बिथानि जिउनि सान्थौनि सायाव सावराय मेल, मेथाइ खननाय आरिनि सर' खालामहोगोन ।

21 जुन = योगा सानाव फरायसाफोरखौ योगासन खालाम होगोन आरो योगा साननि गोनांथिनि सोमोन्दै जथुम खुनानै फोरमायगोन । योगासननि गेजेरजों गोसोआरि आरो देहायारि गोहो बांहोनायजों लोगोसे आबहावा आरो सावस्रियारि दिदोमथिखौ रैखा खालामनायजों लोगोसे फरायसनि सानफोरारि जिउवाव दावगालांनयाव थुलुंगा होगोन ।

29 जुन = थामहिनबा गोलोम बोथोरनि बन्दनि सिगांसान खालि बन्दनि समखौ मोजाडै बाहायनायनि थाखाय फरायसाफोरनौ मोननैसो न'नि हाबा, मावथांथि आरि खालामनो हो । हाबानि फोरमायथिनायखौ जुलाइ दाननि बिलाइयाव मख'नाय जादों ।

सुमोन्थाइ सान-	8
थाखो सान-	16
रबिवास्-	4
गुबुन बन्द सान-	2
गासै सान-	30
(दाननि फालिथाइ सान-3)	

### थाखो बादियै फरा राननाय

#### थाखो द निफ्राय दाइनसिम

आयदा	द थि	स्निथि	दाइनथि
बर' (राव-1)	<input type="checkbox"/> बर' फोरनि दामय सुनाय <input type="checkbox"/> जौनि उजिनय हा थिया	<input type="checkbox"/> जोमेम हादर <input type="checkbox"/> गोमेखो आरो जौनि सान्थि	<input type="checkbox"/> बिदिबानि थोदर फाखन <input type="checkbox"/> दावगानावनि सनाथियाल
सानखान्थि	<input type="checkbox"/> आयु अरुजिया <input type="checkbox"/> रग' अरुजिया	<input type="checkbox"/> गोले समानवाइ <input type="checkbox"/> होखी आरो खन	<input type="checkbox"/> दांफवयारि धुमसु <input type="checkbox"/> खारि बाहायनाय
इंराजी (राव-2)	Tom Sawyer (R)	From the Diary of Anne Frank	Explore India : Quiz Time
बिगियान	हानजायाव मुवाफोरखी बासिखनाय	<input type="checkbox"/> बिदुं <input type="checkbox"/> एस्डि, खारदे आरो सखि	मुवाफोर: धातु आरो धातु नखिफोर
समाज बिगियान	<input type="checkbox"/> जौनि गिदि गोनांथिफोर <input type="checkbox"/> गोदेनि मानसिनि रंखाथियाव हाबा-हुखा आरो गोजेर धानाय (गोदान अन्वड मुवा) <input type="checkbox"/> जौनखा जिउनि गोनांथिफोर (जौनि गावनि आरो समजारी गोनांथि)	<input type="checkbox"/> गुप मुगानि उरनि भारतबवं <input type="checkbox"/> बिथारि, बाजेट आरो जीगानाय <input type="checkbox"/> रंखाथियाव जौगनायव सरकारनि थियाव	<input type="checkbox"/> आसमनि राइरि समजारी डिउआव गेजेर मुगानि खुगिनि फोरनि विहोमा <input type="checkbox"/> संबिधर आरो बेनि गोनांथि <input type="checkbox"/> भारतनि संबिधर
हिन्दी (राव-3)	धरती माता का पत्र	मेरी राजस्थान यात्रा	मैंडम मेरी क्यूरी

थाखो द निफ्राय दाइनसिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

**हाबा सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

- सुथाबनाय हाबा : रुमाल, बुटाम, टेबुल क्लथ, बथानि खोबग्रा, जिनि बेग बायदि बानायनो सोलोंगोन ।
- औवानि हाबा : गिसिब, संग्राइ, एम, स्केल, बेरा बायदि बानायगोन ।

**सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

- फुटबल, काबादी, खो-खो, गोलाउ बारनाय, गोजों बारनाय बायदि गेलेगोन ।
- टयलेट बाहायनायजों लोगोसे जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय ।

**आरिमु सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि**

गाबगोनां लेखा बिलाइजों कलाज बानायगोन ।



□ लामा थाबायनायाव एबा लामा बारस'नायाव गाव सांग्रां जानायजों लोगोसे गथ', बोराइ-बुरि आरो जर'खा हानाय सुबुंखौ मदद खालामनाया जौनि बिबान आरो मावनां हाबा ।

# हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलिपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुक	सुनि	रबि
				1 गोलोम बोथोरनि बन्द	2 गोलोम बोथोरनि बन्द	3 गोलोम बोथोरनि बन्द
4 गोलोम बोथोरनि बन्द	5 गोलोम बोथोरनि बन्द	6 गोलोम बोथोरनि बन्द	7 गोलोम बोथोरनि बन्द	8 गोलोम बोथोरनि बन्द	9 गोलोम बोथोरनि बन्द	10 गोलोम बोथोरनि बन्द (इन्द-कन-व-श)
11 गोलोम बोथोरनि बन्द (मुनुपुनं सुबु अर्नजिमा सान)	12 गोलोम बोथोरनि बन्द	13 गोलोम बोथोरनि बन्द (नेपाली छन्दाइगिनि भावुभक्त आचार्यनि जोनेम सान)	14 गोलोम बोथोरनि बन्द	15 गोलोम बोथोरनि बन्द	16 गोलोम बोथोरनि बन्द	17 गोलोम बोथोरनि बन्द
18 गोलोम बोथोरनि बन्द	19 गोलोम बोथोरनि बन्द	20 गोलोम बोथोरनि बन्द	21 गोलोम बोथोरनि बन्द	22 गोलोम बोथोरनि बन्द	23 गोलोम बोथोरनि बन्द	24 गोलोम बोथोरनि बन्द
25 गोलोम बोथोरनि बन्द	26 गोलोम बोथोरनि बन्द	27 गोलोम बोथोरनि बन्द	28 गोलोम बोथोरनि बन्द	29 गोलोम बोथोरनि बन्द	30 गोलोम बोथोरनि बन्द	31 गोलोम बोथोरनि बन्द

जुलाई 2022

गासै थाखो सानखौ एखे दोननानै बिफानारिनि सिगांआवनो गनायथि लानानै बराक सेरफाइव से निफ्राय बा जुलाईसिम थाखो सान महरै हमनानै समान बिबांनि फुजानि बन्दजों गोरोबहोफाना ला ।

## गोलोम बोथोराव मावनो गोनां हाबा

### थाखो क निफ्राय बा सिम

फोरोंगिरिया जुन दाननि जोबनाय थाखो सानाव बे थोरफोनि फरायसाफोरनो बन्दनि समाव न'वाव बायदि रोखोमनि सोलों-फोरों आगजु बानायनो होगोन ।

जैरै-

■ हांखो कार्ड, अनजिमा कार्ड, सावगारि कार्ड, पोष्टार बायदि ।

■ हाजों बायदि रोखोमनि मुवा बेसादिन महर बानायनाय ।  
■ लेखा बिलाइनि हेफाजाबाव खाम, ग्रीटिच कार्ड, बिबार बायदि

■ मोजां मोननाय आयदायाव सावगारि आखिनाय

■ मोजांमोनाय खन्थाइ, मेथाइ बायदिनि सर' खालामनाय

साफ्रोमबो फरायसाया हा थामहिनबा गुबुन आयजेडव फांफायै बिफां फुलि गायना जोथोन लागोन । गोलोमबोथोरनि बन्द जोबनाय उनाव फरायसालि गोवखालि बिफां फुलिखौ फरायसालियाव लाबोगोन आरो सानफ्रोमबो बेनि जोथोन लागोन ।

## फोरोंगिरि, दिथागिरि, समाजनि मावथि सुबुनि मावनां हाबा

■ फोरोंगिरि, बिमा-बिफा, दिथागिरि आरो समाजनि गोखों मावथि सुबुनि सामलायनायाव जायगायारि मावनाय बिथांखिनि बिथायाव दावबायनाय/सोलोंथाइयारि दावबायनाय आरो नखरारि दावबायनायनि राहा खालाम ।

■ फरायसाफोरखौ बिमा-बिफा आरो दिथागिरिखौ सानफ्रोमनि हाबा-हुखायाव हेफाजाव खालामनो थुलुंगा हो ।

■ बै समाव खुंनाय समाजारि फोरबो फालिनाय आरो गुबुन गुबुन आफादाव बाहागो लानो थुलुंगा हो । नआव मावनो होनाय मावथांखि आरो गुबुन हाबाफोरखौ मावफुंनायखौ रोखा खालाम ।

■ मख'नाय गुबुन गुबुन दावबायनाय हाबाफारिनि सायाव मोनफायै दावबायनाय रेबसुं लिरोनो हो ।

थाखो सान- 0  
(बराक सेरफांनि अन्गारै-)  
रबिबार- 5  
गोलोम बोथोर बन्द सान- 26  
(बराक सेरफांनि अन्गारै-)  
गासै सान - 31

## गोलोम बोथोराव मावनो गोनां हाबा

### जौगा गुदि थाखो द'निफ्राय थाखो दाइनसिम

फोरोंगिरिया जुन दाननि जोबनाय थाखो सानाव बे थोरफोनि फरायसाफोरनो बन्दनि समाव न'वाव बायदि रोखोमनि सोलों-फोरों आगजु बानायनो होगोन ।

जैरै-

■ दावबायनाय सल', सुंद सल', खन्थाइ बायदि ।

■ औवा राइदोंनि बायदि आगजु

■ रुमाल, देबुल क्लथ, एमब्र'इदारी बायदि

■ बायदि रोखोमनि मुखा, फाइल कभार बायदि

■ मोजां मोननाय आयदानि सायाव पोष्टार, बेनार स्ल'गान बायदि

■ मोजां मोननाय आयदानि सावगारि आखिनाय ।

साफ्रोमबो फरायसाया हा थामहिनबा गुबुन आयजेडव फांफायै बिफां फुलि गायना जोथोन लागोन । गोलोमबोथोरनि बन्द जोबनाय उनाव फरायसालि गोवखालि बिफां फुलिखौ फरायसालियाव लाबोगोन आरो सानफ्रोमबो बेनि जोथोन लागोन ।

